



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

सं० 07 / 2015-2020

**विषय: भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एमईआईएस)- परिशिष्ट 3 ड. अधिसूचित।**

**फा.सं. 01/61/180/75/एम 16/पीसी-3.**— समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्ट 3ड. को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रूप में अधिसूचित करते हैं।

2. यह सार्वजनिक सूचना प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** ऐसी सेवाओं- जिसमें अदायगी भारतीय रुपयों में प्राप्त हुई है, को विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.08 (ग) की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य विदेशी मुद्रा में प्राप्त माना जा सकता है, की सूची को अधिसूचित किया जाता है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**सार्वजनिक सूचना सं० 07, दिनांक 04 मई, 2016 का अनुलग्नक****परिशिष्ट 3 ड.(कृपया विदेश व्यापार नीति और दिनांक 01.04.2015 की****सार्वजनिक सूचना सं० 3 के पैरा 3.08 (ग) को पढ़ें)**

नीचे सूचीबद्ध किए गए भुगतान जिसे किसी विदेशी जहाज को भारत में इसके एजेंटों के माध्यम से सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में दी गई सेवाओं सहित दी गई सेवाओं के लिए विदेशी मूलधन को दी जाने वाली राशि या विदेशी क्रेता द्वारा भेजे जाने वाली रकम में से, विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है (अथवा नाविकों सहित किराए के पोत में शामिल सेवाओं के मामले में विदेशी कंपनी द्वारा अधिप्राप्त) या जिसे अन्यथा विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाना था किन्तु भारतीय रुपयों में भुगतान किया गया, को विदेशी मुद्रा में अर्जित माना जाएगा तथा भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम के तहत प्रतिफल प्राप्त करने का पात्र माना जाएगा।

तथापि तटीय और अंतर्देशीय जहाज के लिए 'जहाज संबंधी प्रभार' के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं और तटीय माल, तटीय कन्टेनर और तटीय खाली कन्टेनर के संबंध में 'माल संबंधी प्रभार' की गणना नहीं की जाएगी।

	यातायात सेवाएं
क.	समुद्री यातायात सेवाएं
ग.	नाविकों सहित किराए के पोत
	(I) समय चार्टर/जलयान चार्टर/बेयर बोट चार्टर सेवाएं
	(II) आफशोर सपोर्ट पोत सेवाएं
घ.	जहाजों का रखरखाव और मरम्मत
	जहाज की मरम्मत हेतु सेवा प्रदायक द्वारा जहाजों की मरम्मत, शुष्क गोदी रखरखाव के लिए प्रदान की गई सेवाएं।
ड.	पुशिंग और टोईंग सेवाएं
	(i) विमान संचालन संबंधी सेवाएं
	(ii) जहाजों का स्थानांतरण
	(iii) वार्पिंग सेवाएं
	(iv) पॉयलट को रोकने का शुल्क
	(v) टोईंग सेवाएं
	(vi) कोल्ड मूवमेंट सेवाएं
	(vii) एकल बिन्दु लंगर (एसपीएम) कार्यकलाप के लिए पुलबैक टग सेवाएं
	(viii) कर्षण नौका सेवाएं
	(ix) पायलट रद्दीकरण शुल्क
च.	समुद्रीय परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
	(i) जहाजों की प्रविष्टि के लिए पत्तन देय राशि
	(ii) जहाजों को पानी/ताजे पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क
	(iii) बर्थ हायर सेवाएं
	(iv) बंदरगाह पर जहाजों के ठहरने के लिए लंगरगाह सेवाएं
	(v) पायलट और अन्य क्रू को तट से लाने ले जाने, आपूर्ति जहाज भण्डारण आदि की विविध सेवाओं के लिए कृषण नौका को लेना।
	(vi) विशेष कार्यों के लिए बड़ी नौका को किराए पर लेना
	(vii) फॉयर प्लोट/फायर टेंडर की किराए पर लेना
	(viii) गोता संबंधी सेवाओं को किराए पर लेना
	(ix) सॉस के आघात से बचाव प्रदान करने के लिए सेवाएं (गोदी/तेल घाटों/नाव घाटों/आईडब्ल्यू ए आई घाट/किसी अन्य घाट अथवा लंगर पॉइंट से अथवा तक परिवहन के आघात से बचाव करने सहित)
	(x) समुद्री सेवाओं के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति
	(xi) एसपीएम पर पायलट परिचारक सेवाएं
	(xii) रीफर कंटेनर प्रभार
	(xiii) भंडारण सेवाएं, शटआउट प्रभार
	(xi) टर्मिनल हैडालिंग सेवाएं
	(xv) जहाजीकुली सेवाएं
	(xvi) माल प्रेषण सेवाएं

	(xvii) माल भंडारण सेवाएं
	(xviii) बंकर आपूर्ति सेवाएं
	(xix) कचरा संग्रहण सेवाएं
	(xx) स्लोप संग्रहण/निपटान सेवाएं
	(xxi) टंकी धोने की सेवाएं
	(xxii) आंतरिक परिवहन सेवाएं
	(xxiii) भंडारण सेवाएं
	(xxiv) अंतर-कार्टिंग सेवाएं
	(xxv) पैकिंग सेवाएं
	(xxvi) सर्वेक्षण और निरीक्षण सेवाएं
	(xxvii) नाव प्रभार
	(xxviii) जहाज हैडलिंग सेवाएं
	(xxix) शोर क्रेन हायर सेवाएं
	(xxx) उपकरण किराया सेवाएं अर्थात् फोर्कलिफ्ट, खोदक मशीन, पेलोडर, रिच स्टेकर, एम्टी हैंडलर, हाइड्रॉ स्क्रीनिंग नेट, गैंगवे, ग्रैब, हाइड्रॉ क्रेन, जेनरेटर, ऊर्जा आपूर्ति आदि
	(xxxix) गैंगवे किराया सेवाएं
	(xxxixii) सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा सेवाएं
	(xxxixiii) निर्यात कार्गो के लिए माल समेकन प्रभार
	(xxxixiv) प्रेषण सेवाएं
	(xxxixv) अन्यत्र विनिर्दिष्ट न की हुई हैडलिंग सेवाएं
	(xxxixvi) पादप सेवाएं
	(xxxixvii) माल नौका प्रभार
	(xxxixviii) गैस मुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र का प्रभार
	(xL) वैगन हैडलिंग सेवाएं
	(xLi) ग्रैब परिवहन सेवाएं
	(xLii) हॉट वर्क परमिट सेवाएं
	(xLiii) रिफ्लोटिंग सेवाएं
	(xLiv) माल निर्यात के लिए माल दलाली सेवाएं

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4<sup>th</sup> May, 2016

No. 7 /2015-2020

**Subject: Services Exports from India Scheme (SEIS) –Appendix 3E notified**

**F. No. 01/61/180/75/AM 16/PC 3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), as amended from time to time the Director General of Foreign Trade hereby notifies Appendix 3E as Annexure to this Public Notice.

2. This Public Notice will be effective on services rendered with effect from April 1, 2015.

3. **Effect of this Public Notice:** List of services where payment has been received in Indian Rupees which can be treated as receipt in Deemed Foreign Exchange as per guidelines of Reserve Bank of India in terms of Para 3.08(c) of FTP 2015-20 is notified.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

**Annexure to Public Notice No. 7, Dated 4<sup>th</sup> May 2016**

**APPENDIX 3E (Please read Para 3.08(c) of FTP and  
Public Notice No. 3 dated 01.04.2015)**

Payments which have been received in foreign exchange or which would have been otherwise received in foreign exchange, but paid in Indian Rupees(INR), including through its agents in India out of the amount remittable to the overseas principal, or out of remittances to be sent by the overseas buyer, for services rendered in Customs Notified Areas to a foreign liner ( or procured by a foreign entity in case of services included in rental of vessels with crew) as listed below would be considered as deemed to be received in foreign exchange and deemed to be earned in foreign exchange and shall be eligible for issuing rewards under the Services Exports From India Scheme.

However services provided in respect of 'vessel related charges for coastal and inland vessels' and 'cargo related charges' in respect of coastal cargo, coastal containers and coastal empty containers are to be excluded.

	<b>TRANSPORT SERVICES</b>
<b>(A)</b>	<b>Maritime Transport Services.</b>
<b>c</b>	<b>Rental of vessels with crew</b>
	(I) Time Charter/Voyage Charter/Bare Boat Charter Services.
	(II) Offshore Support Vessel Services
<b>d.</b>	<b>Maintenance &amp; repair of vessels.</b>
	Services provided for ship repair, dry dock and maintenance by ship repair service provider.
<b>e.</b>	<b>Pushing &amp; towing services.</b>
	(I) Pilotage Services.
	(II) Shifting of vessels.
	(III) Warping Services.
	(IV) Charges for detention of pilot.
	(V) Towing Services.
	(VI) Cold movement Services.
	(VII) Pullback tug Services for Single Point Mooring (SPM) operations.
	(VIII) Tug Services.
	(IX) Pilot cancellation Charges.
<b>f.</b>	<b>Supporting services for maritime transport.</b>
	(I) Port dues for entry of vessels.
	(II) Service Charges for Supply of water/fresh water to vessels.
	(III) Berth hire Services.
	(IV) Anchorage Services for stay of vessels at Anchorage.
	(V) Tug hire for miscellaneous services to carry pilots and other crew from and to the shore, supply ship stores etc.
	(VI) Hire of launch for special jobs.
	(VII) Hire of Fire Float / Fire tender
	(VIII) Hire of Diving services.
	(IX) Services for providing pneumatic fender (including to and fro transportation of fenders at Dock/ Oil Jetties/ Barge Jetties/ IWAI Jetty/ Any other Jetty or Anchorage point)
	(X) Supply of skilled man-power for marine services.

	(XI) Pilot attendance Services at SPM.
	(XII) Reefer Container Charges.
	(XIII) Storage Services, shutout charges.
	(XIV) Terminal Handling Services.
	(XV) Stevedoring Services.
	(XVI) Cargo Dispatch Services.
	(XVII) Cargo Storage Services.
	(XVIII) Bunker Supply Services.
	(XIX) Garbage Collection Services.
	(XX) Slop Collection/ Disposal Services.
	(XXI) Tank Washing Services.
	(XXII) Internal Transportation Services.
	(XXIII) Warehousing Services.
	(XXIV) Inter-carting Services.
	(XXV) Packing Services.
	(XXVI) Survey & Inspection Services
	(XXVII) Barge Charges
	(XXVIII) Ship chandling Services
	(XXIX) Shore Crane Hire Services
	(XXX) Equipment Hire Services viz Forklift, Excavator, Payloader, Reach Stacker, Empty Handler, Hydra, Screening Net, Gangway, Grab, Hydra Cranes, Generator, Power supply, etc.
	(XXXI) Gangway hire Services
	(XXXII) Security Services for providing security guards
	(XXXIII) Cargo consolidation charges for export cargo
	(XXXIV) Dispatch Services
	(XXXV) Handling Services not specified elsewhere.
	(XXXVI) Phytosanitary Services
	(XXXVII) Lighterage Charges
	(XXXVIII) Gas freeing certificate charges
	(XXXIX) Shifting and Weighment Services
	(XL) Wagon Handling Services
	(XLI) Grab transportation Services
	(XLII) Hot work Permit Services
	(XLIII) Refloating Services.
	(XLIV) Cargo Brokering charges for export cargo